

2006
वाणिज्य एवं लेखांकन
प्रश्नपत्र-I
COMMERCE & ACCOUNTANCY
Paper-I
निर्धारित समय : तीन घण्टे]
Time allowed : Three Hours]
[पूर्णांक : 200
[Maximum Marks : 200

- नोट :** (i) कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये । प्रश्न संख्या 1 एवं 5 अनिवार्य हैं । इनके अतिरिक्त तीन अन्य प्रश्नों के उत्तर दीजिये, जिनमें से प्रत्येक खण्ड से कम से कम एक प्रश्न अवश्य हो ।
- (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
- Note :** (i) Answer five questions in all. Question Nos. 1 & 5 are compulsory. Attempt three more questions of which at least one should be from each section.
- (ii) All questions carry equal marks.

खण्ड – अ
SECTION – A

1. 31 दिसम्बर, 2006 को 'अ' का चिह्न निम्नलिखित है :

दायित्व	रु.	संपत्ति	रु.
पूँजी	2,00,000	भूमि एवं भवन	1,30,000
लेनदार	80,000	मशीनरी	1,10,000
देय बिल	20,000	फर्नीचर	2,000
		स्टॉक	8,000
		बैंक में रोकड़	50,000
	3,00,000		3,00,000

व्यवसाय के लाभ 31 दिसम्बर, 2006 तक पाँच वर्ष के निम्नांकित हैं :

प्रथम वर्ष 32,000 रु. , द्वितीय वर्ष 35,000 रु. , तृतीय वर्ष 37,000 रु. , चतुर्थ वर्ष 43,000 रु. एवं पंचम वर्ष 53,000 रु. ।

सम्पत्तियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार है :

भूमि एवं भवन 1,44,000 रु., मशीन 1,18,000 रु., फर्नीचर 1,000 रु. । पूँजीकरण विधि द्वारा ख्याति की राशि निकालिए । साधारण प्रत्याय की दर 10 % प्रति वर्ष है । इस उद्देश्य के लिए सामान्य विनियोजित पूँजी को ध्यान में रखिये ।

Balance Sheet of 'A' on 31st December, 2006 was as under :

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital	2,00,000	Land & Building	1,30,000
Creditors	80,000	Machinery	1,10,000
B/P	20,000	Furniture	2,000
		Stock	8,000
		Cash at Bank	50,000
	3,00,000		3,00,000

The profits of the business for the five years ending 31st December, 2006 are :

I year Rs. 32,000, II year Rs. 35,000, III year Rs. 37,000, IV year Rs. 43,000, V year Rs. 53,000.

The assets are revalued as under :

Land and Building Rs. 1,44,000, Machinery Rs. 1,18,000 and Furniture Rs. 1,000. Find out goodwill by capitalisation method. The rate of normal return is 10% p.a. Take average capital employed into consideration for this purpose.

2. भारतीय आयकर विधान से सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों के कार्यों का वर्णन कीजिए । 40
Describe the functions of the Income Tax Authorities related to Income Tax Act.
3. (अ) सम-विच्छेद बिन्दु क्या है ? इसकी गणना कैसे की जाती है ? 20
(ब) लोचदार बजट से आप क्या समझते हैं ? यह किस प्रकार बनाया जाता है ? 20
(a) What is Break-Even-Point ? How it is calculated ?
(b) What do you understand by flexible budget ? How it is prepared ?
4. कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक अंकेक्षक के अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए । 40

State the rights, duties and liabilities of an Auditor under the Companies' Act, 1956.

खण्ड - ब

SECTION - B

5. कार्यशील पूँजी से आपका क्या तात्पर्य है ? किसी फर्म की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्त प्रबन्ध के आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतों की व्याख्या कीजिए । 40

What do you mean by working capital ? Explain the internal and external sources of financing working capital requirements of a firm.

Critically examine the functions, organisation and working of Industrial Development Bank of India.

7. (अ) एक आदर्श लाभांश नीति के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए । 20

(ब) लाभांश नीति की वाल्टर विचारधारा क्या है ? क्या यह वित्तीय प्रबन्धकों के लिए उपयोगी है ? 20

(a) Describe the essential elements of an ideal dividend policy.

(b) What is Walter Approach of dividend policy ? Is it useful for financial managers ?

8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) भारतीय पूँजी बाजार

(ii) जीवन बीमा निगम

(iii) दीर्घकालीन वित्त पूर्ति के साधन

20 + 20

Write notes on any **two** of the following :

(i) Indian Capital Market

(ii) Life Insurance Corporation

(iii) Sources of Long term Financing